



वेस्ट बैंक में हिंसा

प्रश्न पत्र - 2(अन्तर्राष्ट्रीय संबंध)
स्रोत- द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों ?

- ❖ हाल ही में हेब्रोन और रामल्ला में हुई घटनाओं में इजराइली सुरक्षा बलों द्वारा 5 फिलिस्तीनी पुरुषों की हत्या इजराइली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हिंसा और प्रतिशोध की एक नयी तस्वीर प्रस्तुत की गयी।
- ❖ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हर महीने होने वाले तनाव की वजह से गाजा पट्टी विश्व के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है।

पृष्ठभूमि


- ❖ मई, 2021 में येरुशलम में हुई झड़प की वजह से गाजा पट्टी में 11 दिनों का युद्ध हुआ था और इसके पश्चात् से वेस्ट बैंक में आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन के नेतृत्व में निरंतर संगठित सशस्त्र प्रतिरोध बढ़ रहा है।
- ❖ वेस्ट बैंक में उभरे नए उग्रवादी समूहों में से एक लायन्स डेन है।
- ❖ इजराइल ने "ब्रेक द वेव" नाम के एक ऑपरेशन कोड द्वारा इन समूहों को कुचलने का प्रयास किया।

लायंस डेन सशस्त्र समूह –

- ❖ यह उत्तरी वेस्ट बैंक में नब्लस क्षेत्र का एक सशस्त्र समूह है जो फिलिस्तीनी प्रतिरोध के बदलते चेहरे को दिखाना चाहता है। यह इजराइली चौकियों, सैनिकों और बस्तियों तथा अवैध रूप से बसने वालों यहूदियों पर निरंतर हमला करता आया है। इसका उद्देश्य फिलिस्तीनियों को एकजुट करना है।
- ❖ इसके सदस्य मुख्य रूप से युवा पुरुष हैं, जिनके पारंपरिक फिलिस्तीनी राजनीतिक दलों के साथ व्यक्तिगत संबंध भी हैं: जैसे- फतह, हमास, इस्लामिक जिहाद।
- ❖ लायंस डेन की पहली आधिकारिक उपस्थिति 2 सितंबर को नब्लस में अपने दो लड़ाकों - मोहम्मद अल-अज़ीज़ी(समूह संस्थापक) और अब्द अल-रहमान सोभ - के लिए आयोजित एक स्मरण समारोह के दौरान दर्ज की गयी थी।

इजराइल के समक्ष चुनौतियाँ

- ❖ इजराइल की सख्त कार्रवाई के बावजूद जारी हिंसा इस हकीकत को रेखांकित करती है कि कब्जे और नाकेबंदी वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में यथास्थिति बरकरार रखना असहनीय और अस्थिर है।




- ❖ वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में फिलिस्तीनी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जहाँ फतह समूह द्वारा किया जाता है, वहीं भूमध्यसागरीय तट पर स्थित गाजा पट्टी पर उसके प्रतिद्वंदी हमास का नियंत्रण है।
- ❖ वेस्ट बैंक में निरंतर तनावों ने फिलिस्तीनियों की नई पीढ़ी को हिंसा और उग्रवाद में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है।
- ❖ इजराइली प्रधानमंत्री के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी से हालात और खराब हो सकते हैं क्योंकि उनके कुछ दक्षिणपंथी एवं अति-रूढ़िवादी सहयोगी चाहते हैं कि वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का विस्तार किया जाए और इजराइल के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से “असभ्य” अरब नागरिकों को निकालकर बाहर किया जाए।
- ❖ देखा जाए तो यह बढ़ती हिंसा, कब्जा करने वाले व कब्जे का शिकार होने वाले लोगों पर बुरा असर डाल रही है। जहाँ एक ओर फिलिस्तीनी लोगों का जीवन बेहद दुश्वार प्रतीत होता है, वहीं अंतहीन संघर्ष इजराइली समाज को भी नया रूप दे रहा है।

ओस्लो संधि

- ❖ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 13 सितंबर, 1993 को अमेरिका में हुई ओस्लो संधि द्वारा दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य करने पर सहमति बनी थी, लेकिन ताजा हालातों के बीच यह संधि पूरी तरह असफल सिद्ध हुई है।

इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष:

- ❖ इस संघर्ष की शुरुआत येरुशलम से होती है। 1948 में हुए प्रथम अरब-इजराइल युद्ध में, इजराइलियों ने शहर के पश्चिमी हिस्से और जॉर्डन ने पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया।
- ❖ इसके पश्चात् इजराइल ने पूर्वी येरुशलम में बस्तियों का विस्तार शुरू कर दिया।
- ❖ फिलिस्तीनी पूर्वी येरुशलम को अपने राज्य की राजधानी बनाना चाहते हैं और इजराइल पूरे शहर को अपनी "एकीकृत, शाश्वत राजधानी" के रूप में देखता है।
- ❖ फिलिस्तीन ऐसे किसी भी समझौते से इनकार करता है जो पूर्वी येरुशलम को भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में मान्यता नहीं देता।
- ❖ फिलिस्तीनियों को पूर्वी येरुशलम के एक पड़ोसी क्षेत्र शेख जर्ह से बेदखली के खतरे का सामना करना पड़ा है क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में यहूदी बसने जा रहे हैं।
- ❖ मक्का और मदीना के बाद अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम धर्मानुनायियों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थल है जहाँ कुछ समय पूर्व ही इजराइली सशस्त्र बलों द्वारा हमला किया गया था।



संभावित प्रश्न

प्रश्न –निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए-

- वेस्ट बैंक की सीमा मृत सागर से लगती है
- गाजा पट्टी, जॉर्डन की सीमा से सटी है
- हेब्रोन, जेरुसलम के दक्षिण में स्थित है
- इजराइल, लेबनान और मिस्र से सीमा साझा करता है

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न –इजराइल-फिलिस्तीन विवाद के कारकों पर प्रकाश डालते हुए भारत के हितों पर इसके प्रभावों के बारे में चर्चा कीजिए।

मध्यकालीन भारत
New Batch Admission Open in
ऑनलाइन Live बैच
कक्षा प्रारंभ
05 DECEMBER
सुबह 8:00 बजे
Manikant Singh
9999516388, 8595638669

30 Years of THE STUDY
An Institute for IAS
Manikant Singh
★ FOUNDATION DAY OFFER ★
Online Live Course
10% Discount
FOR LIMITED PERIOD
Full Course ₹35,000 OFFER PRICE ₹31,500
Recorded Class-Room (New Course) Studio Recorded Course
Pen Drive Class-Room (New Course) Pen Drive Course
Full Course ₹29,500 OFFER PRICE ₹26,550 Full Course ₹25,960 OFFER PRICE ₹23,364
For Module ₹9,440 OFFER PRICE ₹8,496 For Module ₹8,850 OFFER PRICE ₹7,965
9999516388, 8595638669



THE STUDY
BY MANIKANT SINGH

thestudyias@gmail.com
MOB: 9999516388